



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2—सितम्बर 8, 2017 (भाद्रपद 11, 1939)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2—SEPTEMBER 8, 2017 (BHADRA 11, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	677	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	805	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1563	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 20669
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 2737
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1615
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	677	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	805	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1563	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	20669
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2737
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1615
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I— खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 23 जून 2017

संकल्प

सं. 20017/02/2016—रा.भा.(नीति)—भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2. गृह मंत्री	उपाध्यक्ष
3. गृह राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी)	सदस्य
4. मानव संसाधन विकास मंत्री	सदस्य
5. सूचना एवं प्रसारण मंत्री	सदस्य
6. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य
7. रेल मंत्री	सदस्य
8. विदेश मंत्री	सदस्य
9. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री	सदस्य
10. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
11. मुख्य मंत्री, झारखंड	सदस्य
12. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
13. मुख्य मंत्री, गुजरात	सदस्य
14. मुख्य मंत्री, तेलंगाना	सदस्य
15. मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
16. उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
17. संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के संयोजक	सदस्य
18. संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
19. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
20. श्री दिलीप कुमार मेधी	सदस्य
21. श्री तुषार शुक्ल	सदस्य
22. सुश्री जोहरा अफजल	सदस्य
23. श्री ए. अरविंदाक्षन	सदस्य
24. श्री कुन्दन व्यास	सदस्य
25. श्री गिरीश्वर मिश्र	सदस्य
26. सुश्री निर्मला जैन	सदस्य
27. श्री मोहन	सदस्य
28. श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी	सदस्य
29. सुश्री प्रतिभा राय	सदस्य
30. सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य सचिव

2. यह समिति हिंदी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।

3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उपसमितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के प्रयोजन से इस समिति को उच्च स्तरीय समिति माना जाएगा।

5. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2017

शुद्धिपत्र

विषय:- केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन - शुद्धिपत्र।

सं. 20017/02/2016-रा.भा.(नीति)—भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन दिनांक 23 जून 2017 को समसंख्यक संकल्प के माध्यम से किया है। उक्त संकल्प दिनांक 01.07.2017 को भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित हुआ है।

2. संकल्प में केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्यों की सूची में क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित “संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री” के स्थान पर “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री” पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 अगस्त 2017

संकल्प

सं. ई-11016/01/2014-हिन्दी-I—भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी दिनांक 09.09.2015 के संकल्प सं. ई-11016/01/2014-हिन्दी-I में भारत सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है:-

क्र.सं. 10 पर निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

स्थायी पता:

श्री रजनीश त्रिपाठी,
2544/1, शिवपुरी करुंडिया, निराला नगर,
जिला-सुल्तानपुर, पिन-228001

सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्राधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को संप्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गायत्री मिश्रा
संयुक्त सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2017

सं. 8-65/2017-पीपी-1।—समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की दिनांक 26-11-1993 की अधिसूचना संख्या 8-97/91-पीपी-1 के आंशिक संशोधन में सामान्य सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रविष्टियों को उन अधिकारियों, जो अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले पौधों और पौध सामग्री के संबंध में निरीक्षण करने धूमन, अथवा संक्रमणमुक्त करने तथा पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, को पदनाम द्वारा विनिर्धारित करते हुए प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत जोड़कर अथवा प्रतिस्थापन द्वारा शामिल किया जाएगा ।

- I. केन्द्र सरकार
- (Ixi) प्रभारी अधिकारी
पौध संगरोध केंद्र,
धामरा पोर्ट (ओडिशा)
[कोड सं. 'सी'(पीपीक्यूएस)1 (61)]
- (Ixi) प्रभारी अधिकारी
पौध संगरोध केंद्र,
दाहेज पोर्ट (ओडिशा)
[कोड सं. 'सी'(पीपीक्यूएस)1(62)]
- (Ixi) प्रभारी अधिकारी
पौध संगरोध केंद्र
लैंड फ्रन्टियर केंद्र, चांगबंथा (पश्चिम बंगाल)
[(कोड सी-सी (पीपीक्यूएस) 1 (63)]
- (Ixiv) प्रभारी अधिकारी
पौध संगरोध केंद्र लैंड
फ्रन्टियर केंद्र, घोजदंगा (पश्चिम बंगाल)
[(कोड-सं. 'सी' पीपीक्यूएम) 1 (64)]
- (ixv) प्रभारी अधिकारी केंद्र
लैंड फ्रन्टियर केंद्र, मेहादीपुर (पश्चिम बंगाल)
[कोड सं.सीपीपीक्यूएम 1 (65)]
- (Ixiv) प्रभारी अधिकारी
पौध संगरोध केंद्र
भुवनेश्वर एयरपोर्ट ओडिशा
[कोड सं. 'सी' (पीपीक्यूएस) 1 (66)]

अश्विनी कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 23rd June 2017

RESOLUTION

No. 20017/02/2016-OL(Policy) —The Government of India have decided to reconstitute the Kendriya Hindi Samiti. The Samiti will consist of :—

1. Prime Minister	Chairman
2. Home Minister	Deputy Chairman
3. Minister of State, Incharge of Official Language in Ministry of Home Affairs	Member
4. Minister of Human Resource Development	Member
5. Minister of Information & Broadcasting	Member
6. Minister of Communications & Information Technology	Member
7. Minister of Railways	Member
8. Minister of External Affairs	Member
9. Minister of State (Personnel, Public Grievances & Pension)	Member
10. Chief Minister, Madhya Pradesh	Member
11. Chief Minister, Jharkhand	Member
12. Chief Minister, Himachal Pradesh	Member
13. Chief Minister, Gujarat	Member
14. Chief Minister, Telangana	Member
15. Chief Minister, Arunachal Pradesh	Member
16. Deputy Chairman, Committee of Parliament on Official Language	Member
17. Convenor of 1st sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
18. Convenor of 2nd sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
19. Convenor of 3rd sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
20. Shri Dilip Kumar Medhi	Member
21. Shri Tushar Shukla	Member
22. Ms. Zohra Afzal	Member
23. Shri A. Aravindakshan	Member
24. Shri Kundan Vyas	Member
25. Shri Girishwar Mishra	Member
26. Ms. Nirmala Jain	Member
27. Shri Mohan	Member
28. Shri Krishna Kumar Goswami	Member
29. Ms. Pratibha Rai	Member
30. Secretary, Department of Official Language	Member Secretary

2. The functions of this Samiti will be to bring about coordination in the work and programmes relating to the development and propagation and progressive use of Hindi for the official purposes being implemented by the various Ministries/ Departments of Government of India.

3. The Samiti will have the power to appoint Sub-Committees and Co-opt additional members, as may be necessary, for assisting it in the discharge of its functions.

4. This Samiti will be treated as High Powered Committee for the purposes of grant of TA/DA to its non-official members for participation in its meetings.

5. The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution.

6. The Headquarter of the Samiti will be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BIPIN BEHARI
Joint Secretary

The 20th July 2017

CORRIGENDUM

Subject : Reconstitution of Kendriya Hindi Samiti – Corrigendum

No. 20017/02/2016-OL(Policy)—The Government of India have reconstituted the Kendriya Hindi Samiti vide even number Resolution dated 23.06.2017. The said resolution has been published in the Gazette of India in Part-I, Section 1 on 01.07.2017.

2. In the said resolution the member of Kendriya Hindi Samiti mentioned at serial no. 6 i.e. “Minister of Communications & Information Technology” may be read as “Minister of Electronics & Information Technology”.

ORDER

ORDERED that a copy of this Corrigendum be communicated to all the State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

BIPIN BEHARI
Joint Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th August 2017

RESOLUTION

No. E-11016/01/2014-Hindi-1—In the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare Resolution No. E-11016/01/2014-Hindi dated 9th September, 2015 regarding reconstitution of the Hindi Salahakar Samiti, the Government of India makes the following amendment:-

After the entry at Sl. No. 10, the following shall be inserted:

Permanent Address-

Shri Rajneesh Tripathi,
2544/1, Shivpuri Karundia, Nirala Nagar,
Distt. Sultanpur
Pin-228001

Member

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Government and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Ayog, Committee of Parliament Official Language, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries and Departments of the Government of India, and Pay & Accounts Office of the M/o Health & Family Welfare and attached and subordinate offices under the control of the M/o Health & Family Welfare.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information of the public.

GAYATRI MISHRA
Joint Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 11th August 2017

No. 8-65/2017-PP.II—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare Notification No.8-97/91-PP.I dated 26.11.1993, as amended from time to time, it is hereby notified for general information that the following entries shall be included by way of addition or replacement under the relevant heads specifying officers, by designation, who are authorized to inspect, fumigate or disinfect and grant phytosanitary certificates in respect of plants and plant materials intended for export to other countries, which require such certificates:-

I. Central Government

- (lxi) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Dhamra Port (Odisha),
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (61)]
- (lxii) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Dahej Port (Odisha),
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (62)]
- (lxiii) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Land Frontier Station, Changrabandha (West Bengal),
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (63)]
- (lxiv) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Land Frontier Station, Ghoadanga (West Bengal),
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (64)]
- (lxv) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Land Frontier Station, Mehadipur (West Bengal),
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (65)]
- (lxiv) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Bhubaneswar Airport (Odisha),
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (66)]

ASHWANI KUMAR
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in